



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, नवम्बर 30—दिसम्बर 6, 2008, शनिवार/अग्रहायण 9—अग्रहायण 15, 1930  
No. 49] NEW DELHI, NOVEMBER 30—DECEMBER 6, 2008, SATURDAY/AGRAHAYANA 9—AGRAHAYANA 15, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 208.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह “क” और समूह “ख” पद अयोधक भर्ती नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह “क” और समूह “ख” पद अयोधक भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह “क” और समूह “ख” पद अयोधक भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में ज्येष्ठ प्रशासनिक

अधिकारी के पद से संबंधित क्रम सं. 1 में,—

(क) स्तंभ 11 में, “विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता” शब्दों के स्थान पर, “विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ 13 में, क्रम सं. 3 की प्रविष्टि में “उप सचिव (केंद्रीय पुलिस संगठन), गृह मंत्रालय” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय”।

[फा.सं. 17/48/2007—कार्मिक/सी.सु.ब.]

बरूण कुमार साहू, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 411 तारीख 4 अगस्त, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 335 तारीख 1 अक्टूबर, 2005 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

New Delhi, the 28th November, 2008

**G.S.R. 208.** — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force Headquarters Group 'A' and 'B' posts, non-combatised Recruitment Rules, 2001, namely:—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force Headquarters Group 'A' and 'B' posts, non-combatised Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force Headquarters Group 'A' and 'B' posts, non-combatised Recruitment Rules, 2001, in the Schedule, against serial number 1, relating to the post of Senior Administrative Officer,—

(a) in column 11, in the heading, for the words “percentage of posts”, the words “percentage of vacancies” shall be substituted;

(b) in column 13, serial number 3 in the entries for the words and brackets “Deputy Secretary (Central Police Organization)”, the following shall be substituted, namely:—

“Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs”.

[F.No. 17/48/2007-Pers/BSF]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Pers)

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number GSR 411, dated the 4th August, 2001 and subsequent amendment *vide* number GSR 335, dated the 01 October, 2005.

( भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय )

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2008

**सा.का.नि. 209**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में चपरासी समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में चपरासी समूह 'घ' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 होगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में चपरासी समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007 के कॉलम (11) के शीर्षक में 'पदों की प्रतिशतता' शब्दों के स्थान पर 'रिक्तियों की प्रतिशतता' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. ए-16011/26/2000-प्रशा. II/V]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

**टिप्पणी :** मूल नियम दिनांक 2 जून, 2007 के सा.का.नि.

93 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् दिनांक 23 अगस्त, 2008 के सा.का.नि. 154 द्वारा संशोधित किए गए थे।

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

New Delhi, the 1st December, 2008

**G.S.R. 209.** — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India and the offices of the Director of Census Operations in States and Union Territories, Peon Group 'D' Posts Recruitment Rules, 2007, namely:—

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the offices of the Director of Census Operations in States and Union Territories, Peon Group 'D' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Office of the Registrar General, India and the offices of the Director of Census Operations in States and Union Territories, Peon Group 'D' Posts Recruitment Rules, 2007, in the heading of column (11), for the words “percentage of the posts”, the words “percentage of vacancies” shall be substituted.

[F.No.A-16011/26/2000-Ad-II/V]

D. S. SAINI, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 93 dated the 2nd June, 2007 and subsequently amendment *vide* G.S.R. 154 dated 23rd August, 2008.

**जल संसाधन मंत्रालय**

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2008

**सा.का.नि. 210.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 2000 को, जहां तक उनका संबंध अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय में अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) समूह

‘ख’ पद भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन)	3*(2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपित्रत, अननुसचिवीय	5500-175- 9000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(8)			(9)		(10)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		सशस्त्र बल के पुनर्नियोजित कार्मिकों के लिए दो वर्ष	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			

(11)

प्रतिनियुक्ति (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रति-नियुक्ति/पुनर्नियोजन)

(12)

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी,-

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या  
(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; या  
(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500-7000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; या  
(iv) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4000-6000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो; और  
(ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य; और  
(ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान का बुनियादी प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, या जिनके पास कार्य अध्ययन संगठन और पद्धति विश्लेषण सांख्यिकी संचालन अनुसंधान या अन्य प्रबंध अनुसंधान तकनीकों के उपयोजन में एक वर्ष का अनुभव है।

**टिप्पण :** यदि कोई अधिकारी, जिसने पहले से उक्त पाठ्यक्रम नहीं किया है, यदि उसका चयन हो जाता है, तो उसे उक्त पाठ्यक्रम यथाशीघ्र करना अपेक्षित होगा और उसका पद पर निरंतर रखा जाना इस शर्त के अधीन होगा कि वह अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर सफलतापूर्वक उक्त पाठ्यक्रम को पूरा कर लेता है।

**भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन**

सशस्त्र बल के कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी या समतुल्य पद के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों का चयन हो जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व ऐसे पात्र अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिए गए हैं तो उनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी।

**पुनर्नियोजन सिविल पदों के संबंध में अधिवर्षिता की आयु तक)**

**टिप्पण 1-**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2-**प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

लागू नहीं होता

(14)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है जब कोई सशस्त्र बल कार्मिक अन्य के साथ प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के लिए चयन-क्षेत्र में हो।

[फा. सं. 9/2/2006-प्रशा.]

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 28th November, 2008

**G.S.R. 210**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Ministry of Water Resources Research Assistant (WS) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Research Assistant (WS) except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Assistant (WS) in the Ministry of Water Resources, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Research Assistant (Work Study) Group 'B' Post Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government, from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Research Assistant (Work Study)	3* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any for
(8)				(9)		(10)
Not applicable				Not applicable		Two years for Armed Forces personnel re-employed

4646 GI/08-2

Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)	(12)
Deputation (For Armed Forces Personnel Deputation/ Re-employment)	<p><b>Deputation :</b></p> <p>Officers under the Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ Department; or</p> <p>(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000–8000 or equivalent in the parent cadre/department; or</p> <p>(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4500–7000 or equivalent in the parent cadre/Department; or</p> <p>(iv) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4000–6000/- or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) (i) possessing Degree of a recognised University or equivalent and</p> <p>(ii) completed successfully, the Basic Management Service Course of the Institute of Secretariat Training or equivalent Training from any other recognised Institution or have at least one year experience in the application of work study organisation and methods analytical statistical Operations Research or other Management research techniques;</p> <p><b>Note :</b> If an officer who has not already undergone the said course, if selected, he shall be required to undergo the said course at the earliest and his continued retention in the post shall be subject to the condition that he completes the said course successfully within one year of the date of his appointment.</p> <p><b>For Armed Forces Personnel :</b></p> <p>Deputation/re-employment :</p> <p>The Armed Forces Personnel of the Rank of the Junior Commissioned Officer or equivalent due to retire or to be transferred to reserved within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. If selected, such persons will be given deputation term upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment basis. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis.</p> <p>(Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil post).</p> <p><b>Note 1 :</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2 :</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>

If Departmental Promotion Committee exists What is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary when an Armed Forces Personnel among others is in the field of selection for deputation/re-employment.

[F. No. 9/2/2006-Admn.]  
N. K. GUPTA, Under Secy.

**खान मंत्रालय**

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 211.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खान ब्यूरो (चेनमैन), समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खान ब्यूरो (चेनमैन), समूह 'घ' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय खान ब्यूरो (चेनमैन), समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) के हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

3. मूल नियम की अनुसूची में,—

- (1) स्तंभ 1 के हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है;
- (2) स्तंभ 13 में, मद 3 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“3. केंद्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से समूह 'क' अधिकारी—सदस्य”।

[फाईल सं. 22/4/2007-एम.-III]

आर. के. मल्होत्रा, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 188, तारीख 23 अगस्त, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF MINES**

New Delhi, the 4th November, 2008

**G.S.R.211.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Indian Bureau of Mines (Chainman), Group 'D' Post, Recruitment Rules, 2007, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Bureau of Mines (Chainman), Group 'D' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Bureau of Mines (Chairman), Group 'D' Post, Recruitment Rules, 2007 (hereafter referred to as the principal rules), in rule 1, sub-rule (1), for the brackets and word “(Chairman)”, the brackets and word “(Chainman)” shall be substituted.

3. In the Schedule to the principal rules,—

- (i) in column 1, or the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—  
“Chainman”;

- (ii) in column 13, for the entry against item 3, the following entry shall be substituted, namely :—

“3. Group 'A' Officer from any other Central Government Office—Member”

[F. No. 22/4/2007-M-III]

R. K. MALHOTRA, Dy. Secy.

**Footnote :** The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 188, dated the 23rd August, 2007.